



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 माघ 1931 (श०)
(सं० पटना 139) पटना, बृहस्पतिवार, 11 फरवरी 2010

बिहार विधान परिषद्, सचिवालय

अधिसूचना

4 जून 2009

संख्या-वि.प.अ.प्र.-94/2009-1451(1) वि.प.—बिहार विधान परिषद् में लोक जनशक्ति पार्टी के एक मात्र सदस्य, श्री संजय सिंह जो द्विवार्षिक निर्वाचन, 2006 में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, ने दिनांक 4 जून 2009 को भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 4 के उप-पैरा 2 के अधीन लोक जनशक्ति पार्टी का जनता दल (यू) में विलय कर लेने संबंधी माननीय नेता, बिहार विधान मंडल दल, जनता दल (यू) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पत्र माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् को सुपुर्द किया।

माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् ने भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 4 के उप-पैरा 2 के अधीन माननीय सदस्य श्री संजय सिंह से प्राप्त पत्र के आलोक में बिहार विधान परिषद् में लोक जनशक्ति पार्टी का जनता दल (यू) में विलय की मान्यता प्रदान करने की कृपा की है। फलस्वरूप विधिक प्रावधानों के उद्देश्य से जनता दल (यू) ही श्री संजय सिंह का राजनैतिक दल समझा जाएगा।

माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश से,

मुंगेश्वर साहु.

सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 139-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>